



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2016 (आषाढ़ 11, 1938)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2016 (ASADHA 11, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 3 जून 2016

सं. ओ.दो.3658/05—कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. विशाल
लागमप्पा हडपड, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (द्वितीय कमान अधिकारी), ईरला— 6355, कम्पोजिट अस्पताल के.रि.पु.बल, ईम्फाल, द्वारा
दिनांक 19 मई 2016 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात्
दिनांक 19 मई 2016 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

अभय वीर चौहान
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2016

सं.: प्रशा.—II/गजट नोटिफिकेशन/आर—12063/60/2014/डी—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम

के सम्मुख अंकित दिनांक से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:

- सर्वश्री
- | | | |
|----|---|---|
| 1. | दुष्यंत कुमार शर्मा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.05.2016 (अपरान्ह) से अधिवार्षिकी पर
सेवानिवृत्त |
| 2. | सतीश कुमार शर्मा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.05.2016 (अपरान्ह) से अधिवार्षिकी पर
सेवानिवृत्त |

हस्ता./— अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद शाखा कार्यालय राजस्थान
जयपुर, दिनांक 2016

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/124/2014-15/डी—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

- सर्वश्री
- छोटे लाल यादव, 31.05.2016 (अपरान्ह) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

हस्ता./— अपठनीय
उप निदेशक

महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
हैदराबाद-500004, दिनांक 13 जून 2016

सं. प्रशा.I/यूआई/4-26/2016-2017/186565—प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह), आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैदराबाद ने सहर्ष निम्नलिखित एड-हॉक(तदर्थ) सहायक लेखा अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख बताई गई तिथि से रु.4800/- की ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 9300-34800 में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियमित किया है।

क्रमांक	नाम श्री/श्रीमति	का.आ.संख्या तथा दिनांक	सहायक ले.अ के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
1	टी. श्रीनिवास-II	प्रशा. I/ यु- I/4-26/2016-17/22 दि.01-06-2016	01-06-2016 पूर्वाहन
2	वी. विजया लक्ष्मी	प्रशा. I/ यु- I/4-26/2016-17/22 दि.01-06-2016	01-06-2016 पूर्वाहन
3	वाई. यशोदा नीलिमा	प्रशा. I/ यु- I/4-26/2016-17/22 दि.01-06-2016	01-06-2016 पूर्वाहन
4	शेख मस्तान	प्रशा. I/ यु- I/4-26/2016-17/22 दि.01-06-2016	01-06-2016 पूर्वाहन

यह नियमित उनके वरिष्ठ द्वारा दायर दावों और पूर्वाग्रह के बिना, अगर कोई है तो, तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट/केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में लंबित रिट याचिका के निर्णय के तहत होगा।

हस्ता./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

सं. ओई (ई एण्ड सी)/ईआईवी/पी/16-17/78—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती पार्वती वी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2016 अ. (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती रेणुका एन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2016 अ. (अधिवर्षिता)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
3.	श्रीमती विजयम्मा वी आर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, शाखा कार्यालय, तृश्शूर	31.05.2016 अ. (अधिवर्षिता)
4.	श्री शशिधरन नायर सी	सहायक लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2016 अ. (अधिवर्षिता)
5.	श्री मोहम्मद सलीम बी	सहायक लेखा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2016 अ. (अधिवर्षिता)

हस्ता./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता — 700016, दिनांक 17 जून 2016

सं. 4251/एसपी/ए-32013/3—निदेशक(रसा.)/2016-17/2016-19बी—सक्षम प्राधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर, डॉ. वी.पी. सिंह, अधीक्षण रसायनज्ञ को पदोन्नति पर निदेशक (रसायन) [नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी)] के पद पर वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार पे बैंड — 4 : ग्रेड पे रु. 8700 सहित रु. 37,400—67,000 में दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

टी.आर. दास
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

सं. 4261/एसपी/ए-32013/3—सहा.रसा./2015-19बी खंड.II—महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर इसी विभाग में सहायक रसायनज्ञ के पद/ग्रेड पर वेतन नियमानुसार रु. 4800/— के ग्रेड पे सहित, पे बैंड — 2 रु. 9,300—34,800/— में नियमित आधार पर, प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम. सं	अधिकारी का नाम	सहायक रसायनज्ञ के पद/ग्रेड पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्रीमती स्वाति शर्मा	14.12.2015 (पूर्वाह्न)
2.	श्री विनोद कुमार जांगिड	11.12.2015 (अपराह्न)

टी.आर. दास
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

नवी मुंबई—400703, दिनांक 14 जून 2016

सं. ब्रिट/9/17(1)/जुलाई/2015/133—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को दिनांक 25 अगस्त 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 15600—39100 के वेतन बैंड में रु.7600 ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'ई' के रूप में नियुक्त करते हैं ।

क्र.सं.	नाम
1.	श्रीमती प्रसन्ना राव

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/17(1)/जुलाई/2015/134—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 15600—39100 के वेतन बैंड में रु.7600 ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'ई' के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम
1.	श्री संजय पोपट पाटील
2.	श्री के पी अशोकन

3. श्री डी जी महेश
4. श्री अविनाश एस गेंगजे
5. श्री शशि भूषण प्रसाद

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/17(1)/जुलाई/2015/135—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को दिनांक 1 जुलाई 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 15600—39100 के वेतन बैंड में रु. 6600 ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'डी' के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र.स. नाम

1. श्रीमती उमा शेरी कुमार
2. श्री सौमेन दास
3. श्री तंगम सरवनन
4. श्री राहुल एस खरात
5. श्री मोहम्मद अशरफ टी
6. श्री संजीत कुमार साहा

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/17(1)/जुलाई/2015/136—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी को दिनांक 1 जुलाई 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 15600—39100 के वेतन बैंड में रु. 6600 ग्रेड वेतन सहित, तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'डी' के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र.स. नाम

1. श्री नविन विनायक साखरे
2. श्री हुकुम सिंह
3. श्री अमित कुमार

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 2016

सं. एलसी/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से गजट में पब्लिकेशन की तारीख से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है:—

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन सं.	एसआरएन सं.
1	कीर्तिका इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2000PTC025114	G02334050
2	स्टीमुलेस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC054059	G02319788
3	इण्डो एयरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U24121UP1991PTC013774	G02308906
4	सेफहैण्ड पैकर्स एण्ड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	U74120UP2014OPC064947	G02298453

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन सं.	एसआरएन सं.
5	आई जी शूज प्राइवेट लिमिटेड	U19201UP1989PTC010947	G02286953
6	आरगिन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055083	G02220960
7	प्रोटो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1977PTC004411	G02175073
8	मइक्रोमैप सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2002PTC026824	G02156503
9	अभीम डेयरी और फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056400	G02135101
10	आफताब डेयरी और फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054621	G02132140
11	आर्कषण डेयरी और फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054624	G02131332
12	मैकसीकान फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U36912UP2015PTC069134	G02106318
13	एनसीआर सिटी प्राप्टेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2015PTC069178	G02042208
14	ईईई लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U40300UP2012PTC052350	G01933381
15	श्रीमंगलम गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U36912UP2011PTC045928	G01791409
16	जेआईए एजूकेट प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC048656	G01753532
17	ओपल इण्टरटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड	U92412UP2013PTC059754	G01748722
18	आकृति बिजनेस सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PTC060626	G01705623
19	रेड पेपरेज जनरल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049162	G01660232
20	रामायत्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U29253UP2013PTC057368	G01632967
21	स्पंकमोबी सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC056991	G01632918
22	यू एस डी इंडिया इण्टर प्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC057613	G01624329
23	सोलर पावर इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC047862	G01623255
24	अधीक्षित डेयरी एण्ड फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056261	G01609759
25	अहिराज गंगा डेयरी एण्ड फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056388	G01607431
26	अल्पेश डेयरी एण्ड फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056365	G01604255
27	अकबर डेयरी एण्ड फार्म उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056501	G01578731
28	एम्पटेक ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2015PTC074148	G01553007
29	आकाशदीप इन्फोटेक (इंडिया) लिमिटेड	U72300UP2014PLC065681	G01552280
30	एवीएम टेक कमिकल प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2013PTC060810	G01476746
31	अर्थवदित्या इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC049093	G01464767
32	आर्चविंग ट्रेड केयर प्राइवेट लिमिटेड	U19129UP2013PTC061143	G01445816
33	दिव्यांश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC047335	G01436500
34	जय मांदुरी फिनवेस्ट लिमिटेड	U65923UP2010PLC040140	G01423748
35	एसके मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2013PTC060125	G01414861
36	यमुना सिटी प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC061410	G01303163

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन सं.	एसआरएन सं.
37	ऐष्रा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC054784	G01292010
38	पिनाकेलवेव इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2014PTC064819	G01269075
39	कपिल गर्ग इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	U93030UP2014OPC065607	G01246248
40	विंध्या इन्फ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2014PTC065481	G01179035
41	लोटस गोल्ड इन्फ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049070	G01159805
42	लोटस गोल्ड रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049075	G01158211
43	शीघ्र फाइनेंसियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058072	G01125699
44	प्रगति कस्टमर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2014PTC067154	G01044346
45	ऐ ईमान ट्रेवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2013PTC061516	G01038942
46	प्रेण्टो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2015PTC069035	G01024637
47	कश्टोडियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2014PTC063655	G00982538
48	एसएस बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC048236	G00976167
49	अवध सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062143	G00953992
50	गोमती मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U50102UP2001PTC026187	G00906040
51	रवि एसोसियेटेड इन्फ्रावेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062288	G00872606
52	पीपीएम वेजसेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2012PTC051341	G00767988
53	भानुश्री इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC059354	G00750646
54	एच डी इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2015PTC068371	G00733097
55	आजाद कुमार अनिल कुमार जैन प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1994PTC017133	G00591461
56	शरान्धर आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055554	G00581645
57	नेचर प्योर एक्वा प्राइवेट लिमिटेड	U41000UP2011PTC045175	G00574038
58	पेसिफिक स्पेक्ट्रम कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U30007UP1998PTC023754	G00531897
59	आयुशी काउन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2000PTC025395	G00521039
60	कान्हा माखन बिल्डरों एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC056621	G00443952
61	स्ट्रिंग कैरियर मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2014PTC065304	G00429084
62	काशी ट्यूबों प्राइवेट लिमिटेड	U25111UP1974PTC003901	G00373118
63	ब्रजधाम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909UP2014PTC063686	G00349829
64	स्पिन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2014PTC063680	G00331090
65	साई कृपा फैब क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2010PTC042820	G00329029
66	एसएस इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC064703	G00284489
67	ब्लैकबर्ड ई. सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC056550	G00283648
68	आर्यन कमोटेड प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC038519	G00273482

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन सं.	एसआरएन सं.
69	मनसीघाम डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2015PTC068560	G00261586
70	विंध्य अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC042758	G00206334
71	मिशन इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2013PTC061429	G00133439
72	टूडे एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC049812	G00117309
73	जी हैरिस रियल्टार प्राइवेट लिमिटेड	U15134UP2004PTC028366	G00098236
74	सदाना म्यूचुअल बेनीफिट लिमिटेड	U65923UP1996PLC019308	G00093278
75	पीसी रेस्क्यूलिफ प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2012PTC050172	G00077461
76	जेसेस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC050546	G00064709
77	पुष्पम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2011PTC046874	G00038505
78	परिजात ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC038151	G00020172
79	पंडित द्यमंडी लाल एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC052857	C82429416
80	ज्वाइनिंग हैण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2011PTC045522	C82230541
81	जेएमवी फूड एण्ड बेवरीज प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2012PTC051981	C81563132
82	स्पाइन फाइनेंसियल कन्सल्टेंटस प्राइवेट लिमिटेड	U93093UP2008PTC035624	C80487762
83	मल्टएक्स इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2015PTC068669	C80065444
84	सेंचुरीवीजन रूफिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2014PTC067897	C79840526
85	शुचिता एडवर टाईजर्स एण्ड सेल्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2014PTC067341	C79732350
86	ए एम क्यूस्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2012PTC053823	C71316020

पुनीत कुमार दुग्गल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)
New Delhi-110003, the 3rd June 2016

No. O.II.3658/05-Pers-MOs —Consequent on acceptance of technical resignation by the competent authority, Dr. Vishal Lagamappa Hadapad, CMO [OG] / Second-In-Command, IRLA-6355 of Composite Hospital, CRPF, Imphal, has relinquished the charge of his post in the afternoon of 19th May 2016. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 19th May 2016 (AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT), RAJASTHAN

Jaipur, the 2016

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/60/2014/D—The following Group 'B' Gazetted Officer retired from Government service from the date shown against his name:

- S/Shri
1. Dushyant Kumar Sharma Retired on superannuation wef. 31.05.2016 (AN)
Senior Audit Officer
 2. Satish Kumar Sharma Retired on superannuation wef. 31.05.2016 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) AHMEDABAD, BRANCH OFFICE RAJASTHAN

Jaipur, the 2016

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15/D—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:

- S/Shri
1. Chhote Lal Yadav, Retired on superannuation wef. 31-05-2016(AN)
Senior Audit Officer

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Director

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

ANDHRA PRADESH & TELANGANA

Hyderabad – 500 004, the 13th June 2016

No. Admn.I/V.I/4-26/2016-17/186565—The Principal Accountant General(A&E), Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad is pleased to regularize the under mentioned Ad-hoc Assistant Accounts Officers as Assistant Accounts Officers in the Pay Band of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800 with effect from the date mentioned below.

Sl. No.	Name Sri/Smt	O.O.No & Date	Date of assumption of Charge as A.A.O.
1	2	3	4
1.	T Srinivas- II	Admn.I/U-I/4-26/ 2016-17/22 dated 01-06-2016	01.06.2016 FN
2.	V Vijaya Lakshmi	Admn.I/U-I/4-26/ 2016-17/22 dated 01-06-2016	01.06.2016 FN
3.	Y Yasoda Neelima	Admn.I/U-I/4-26/ 2016-17/22 dated 01-06-2016	01.06.2016 FN

1	2	3	4
4.	Shaik Masthan	Admn.I/U-1/4-26/ 2016-17/22 dated 01-06-2016	01.06.2016 FN

The regularization is ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the High Court of Andhra Pradesh & Telangana/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/-ILLEGIBLE
Dy Accountant General (Admn)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
Thiruvananthapuram, the 14 June 2016

No. OE(E&C)/EIV/P/16-17/78—

Sl No	Name	Designation	Date of retirement
1	Smt. Parvathy V	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2016AN (Superannuation)
2	Smt. Renuka N	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2016AN (Superannuation)
3	Smt. Vijayamma V R	Senior Accounts Officer, Branch Office, Thrissur	31.05.2016AN (Superannuation)
4	Sri. Sasidharan Nair C	Assistant Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2016AN (Superannuation)
5	Sri. Mohamed Salim B	Assistant Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2016AN (Superannuation)

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 17th June 2016

No. 4251/SP/A-32013/3-Director(Chem.)/2016-17/2016-19B—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the Competent Authority is pleased to appoint Dr. V.P. Singh, Superintending Chemist on promotion to the post of Director (Chemistry) [Non-Functional Selection Grade (NFSG)] in Geological Survey of India for the year 2016-17 on pay according to rules in PB - 4: Rs. 37,400 - 67,000 with the Grade Pay of Rs. 8,700 with effect from 01.04.2016, until further order.

T.R. DAS
Dy. Director (P&A)

No. 4261/SP/A-32013/3-Asstt.Chem./2015-19B Vol. II—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following officers in the grade of Senior Technical Assistant (Chemical) on promotion to the post/ grade of Assistant Chemist in the same Department on pay according to rules in PB - 2: Rs. 9,300 - 34,800 with the Grade Pay of Rs. 4,800 with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders:

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion to the post/ grade of Assistant Chemist
1.	Smt. Swati Sharma	14.12.2015 (F/N)
2.	Shri Vinod Kumar Jangid	11.12.2015 (A/N)

T.R. DAS
Dy. Director (P&A)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Navi Mumbai- 400 703, the 14th June 2016

No. BRIT/9/17(1)/JULY/2015/133—The President is pleased to appoint the under-mentioned Scientific Officers in the Grade 'D' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers Grade 'E' in the pay band of Rs.15600-39100 and Grade Pay Rs.7600 in the same Unit with effect from the forenoon of August 25, 2015 until further orders.

Sl. No.	Name
1.	Smt. Prasanna Rao

P. RAMAKRISHNAN
Chief Admn. Officer

No. BRIT/9/17(1)/JULY/2015/134—The President is pleased to appoint the under-mentioned Scientific Officers in the Grade 'D' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers Grade 'E' in the pay band of Rs.15600-39100 and Grade Pay Rs.7600 in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2015 until further orders.

Sl. No.	Name
1.	Shri Sanjay Popat Patil
2.	Shri K. P. Asokan
3.	Shri D. G. Mahesh
4.	Shri Shashi Bhooshan Prasad
5.	Shri Avinash S. Gengje

P. RAMAKRISHNAN
Chief Admn. Officer

No. BRIT/9/17(1)/JULY/2015/135—The President is pleased to appoint the under-mentioned Scientific Officers in the Grade 'C' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers Grade 'D' in the pay band of Rs.15600-39100 and Grade Pay Rs.6600 in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2015 until further orders.

Sl. No.	Name
1	Smt. Uma Sheri Kumar
2	Shri Soumen Das
3	Shri Thangam Saravanan
4	Shri Rahul S. Kharat
5	Shri Mohamed Ashraf T.
6	Shri Sanjit Kumar Saha

P. RAMAKRISHNAN
Chief Admn. Officer

No. BRIT/9/17(1)/JULY/2015/136—The President is pleased to appoint the under-mentioned Technical Officer in the Grade 'C' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Technical Officer Grade

‘D’ in the pay band of Rs.15600-39100 and Grade Pay Rs. 6600 in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2015 until further orders.

Sl. No.	Name
1.	Shri Navin Vinayak Sakhare
2.	Shri Hukum Singh
3.	Shri Amit Kumar

P. RAMAKRISHNAN
Chief Admn. Officer

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 13th June 2016

CORRIGENDUM

No. RRCAT/Admin/2015/R-805/461—Reference is invited to Notification No. RRCAT/Admin/2015/R-805/443 dated 07.06.2016 for appointment of Scientific Officer/C (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) as Scientific Officer/D (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on promotion w.e.f. 01.07.2016 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology.

In the aforesaid Notification at Sr. No. 12 the name of “Shri Mohammed Soharab” may be corrected to read as “Shri Mohammad Soharab”.

Rest of the content of the aforementioned notification No. 443 dated 07.06.2016 will remain unchanged.

G. VENKATESAN
Admin. Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 2016

No.LC/560(5)/—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved.

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
1	KIRTIKA INFOSYS PRIVATE LIMITED	U72900UP2000PTC025114	G02334050
2	STIMULUS LABS PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC054059	G02319788
3	INDO AROMATICS PRIVATE LIMITED	U24121UP1991PTC013774	G02308906
4	SAFEHAND PACKERS & MOVERS PRIVATE LIMITED (OPC)	U74120UP2014OPC064947	G02298453
5	I G SHOES PRIVATE LIMITED	U19201UP1989PTC010947	G02286953
6	ORIGIN FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055083	G02220960
7	PROTO PHARMA PRIVATE LIMITED	U51109UP1977PTC004411	G02175073
8	MICROMAP SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900UP2002PTC026824	G02156503

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
9	ABHIM DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056400	G02135101
10	AAFTAB DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054621	G02132140
11	AAKARSHAN DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC054624	G02131332
12	MEXICON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U36912UP2015PTC069134	G02106318
13	NCRCITY PROPTEK PRIVATE LIMITED	U45400UP2015PTC069178	G02042208
14	EEE LIGHTING PRIVATE LIMITED	U40300UP2012PTC052350	G01933381
15	SHRIMANGLAM GOLD PRIVATE LIMITED	U36912UP2011PTC045928	G01791409
16	JIA EDUTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC048656	G01753532
17	OPAL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92412UP2013PTC059754	G01748722
18	AAKRITI BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U70100UP2013PTC060626	G01705623
19	RED PEPPERZ GENERAL TRADING PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049162	G01660232
20	RAMAYATRI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29253UP2013PTC057368	G01632967
21	SPUNKMOBI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC056991	G01632918
22	U S D INDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC057613	G01624329
23	SOLAR POWER ENVIRONMENT PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC047862	G01623255
24	ADHIKSHIT DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056261	G01609759
25	AHIRAJGANGA DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056388	G01607431
26	ALPESH DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056365	G01604255
27	AKBAR DAIRY AND FARM UDYOG PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056501	G01578731
28	AMPTECH GLOBAL TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2015PTC074148	G01553007
29	AAKASHDEEP INFOTECH (INDIA) LIMITED	U72300UP2014PLC065681	G01552280

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
30	AVM TECH CHEMICAL PRIVATE LIMITED	U24100UP2013PTC060810	G01476746
31	ATHARVADITYA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC049093	G01464767
32	ARCHWING TRADECARE PRIVATE LIMITED	U19129UP2013PTC061143	G01445816
33	DIVYANS FOODS PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC047335	G01436500
34	JAI MAA DURGE FINVEST LIMITED	U65923UP2010PLC040140	G01423748
35	A.S.K. MOTORS PRIVATE LIMITED	U74900UP2013PTC060125	G01414861
36	YAMUNA CITY PLANNERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC061410	G01303163
37	ASHPARA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC054784	G01292010
38	PINNACLEWAVE INFRACITY PRIVATE LIMITED	U45201UP2014PTC064819	G01269075
39	KAPIL GARG INFRA TECH PRIVATE LIMITED (OPC)	U93030UP2014OPC065607	G01246248
40	VINDHYA INFRAESTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2014PTC065481	G01179035
41	LOTUSGOLD INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049070	G01159805
42	LOTUSGOLD REALESTATES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049075	G01158211
43	SHIGHRA FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058072	G01125699
44	PRAGATI CUSTOMERS SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2014PTC067154	G01044346
45	AI-IMAN TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED	U63040UP2013PTC061516	G01038942
46	PREPTO EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904UP2015PTC069035	G01024637
47	CUSTODIAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900UP2014PTC063655	G00982538
48	SS BUILDHOME PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC048236	G00976167
49	AWADHCITY HOUSING PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062143	G00953992
50	GOMTI MOTORS PRIVATE LIMITED	U50102UP2001PTC026187	G00906040
51	RAVIASSOCIATES INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062288	G00872606
52	PPM VEGSED PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15122UP2012PTC051341	G00767988
53	BHANUSHREE INFRA TECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC059354	G00750646

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
54	H D INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U70102UP2015PTC068371	G00733097
55	AZAD KUMAR ANIL KUMAR JAIN PRIVATE LIMITED	U51109UP1994PTC017133	G00591461
56	SHARANDHAR AYURVEDA PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055554	G00581645
57	NATURE PURE AQUA PRIVATE LIMITED	U41000UP2011PTC045175	G00574038
58	PACIFIC SPECTRUM COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U30007UP1998PTC023754	G00531897
59	AYUSHI KOUTURE PRIVATE LIMITED	U45400UP2000PTC025395	G00521039
60	KANHAMAANKHAN BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC056621	G00443952
61	STRONG CAREER MULTISERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2014PTC065304	G00429084
62	KASHI TUBES PRIVATE LIMITED	U25111UP1974PTC003901	G00373118
63	BRAJDHAM PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED	U51909UP2014PTC063686	G00349829
64	ESPIN ELECTRONIC PRIVATE LIMITED	U74900UP2014PTC063680	G00331090
65	SAI KRIPA FAB CREATIONS PRIVATE LIMITED	U18204UP2010PTC042820	G00329029
66	SAS INFRAZONE PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC064703	G00284489
67	BLACKBIRD E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC056550	G00283648
68	ARYAN COMOTRADE PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC038519	G00273482
69	MANSIDHAM DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED	U45400UP2015PTC068560	G00261586
70	VINDHYA EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC042758	G00206334
71	MISSION INFO MEDIA PRIVATE LIMITED	U74900UP2013PTC061429	G00133439
72	TODAY AGRO INDIA PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC049812	G00117309
73	G. HARRIS REALTOR PRIVATE LIMITED	U15134UP2004PTC028366	G00098236
74	SADANA MUTUAL BENEFIT LIMITED	U65923UP1996PLC019308	G00093278
75	P C RESCUELIVE PRIVATE LIMITED	U74900UP2012PTC050172	G00077461
76	JCESS BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC050546	G00064709
77	PUSHPAM INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900UP2011PTC046874	G00038505
78	PARIJAATH TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC038151	G00020172
79	PANDIT GHAMANDI LAL AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC052857	C82429416

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
80	JOINING HANDS SERVICES PRIVATE LIMITED	U93030UP2011PTC045522	C82230541
81	GMV FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U55204UP2012PTC051981	C81563132
82	SPINE FINANCIAL CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U93093UP2008PTC035624	C80487762
83	MILIEUX INFRATECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2015PTC068669	C80065444
84	CENTURYVISION ROOFING & INFRA PRIVATE LIMITED	U70102UP2014PTC067897	C79840526
85	SHUCHITA ADVERTISERS AND SALES PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U74120UP2014PTC067341	C79732350
86	A M Q STEEL PRIVATE LIMITED	U27310UP2012PTC053823	C71316020

PUNEET KUMAR DUGGAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in